



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1007) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

सं0 म.भो./को.-ES-123 / 2015—1198

शिक्षा विभाग

संकल्प

31 अगस्त 2015

**विषय—मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त 4,00,000/—(चार लाख) रु. का अनुग्रह अनुदान राशि देने के संबंध में।**

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015—16 में माह अगस्त 2015 में 71,426 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में रसोईया-सह-सहायक के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति में कुल 2,28,000 (दो लाख अठाईस हजार) रसोईया-सह-सहायक कार्यरत हैं। प्रत्येक रसोईया-सह-सहायक को प्रति माह 1000/— (एक हजार रुपये) रु. मानदेय के रूप में दिया जाता है, वो भी एक वर्ष में 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है।

2. इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके उचित पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित

वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में वर्ग-I से वर्ग-VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका-पकाया मध्याह्न भोजन रसोईया-सह-सहायक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में खाना बनाने के दौरान खतरा बना रहता है। साथ ही, ये सभी समाज के कमजोर वर्ग से एवं कम आमदनी वाले परिवार के सदस्य होते हैं। इस पृष्ठभूमि में आवश्यकता प्रतीत हुआ कि रसोईया-सह-सहायक को कार्य के दौरान सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000/- (चार लाख) रु. की अनुग्रह अनुदान राशि उनके आश्रितों को दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त से संबंधित स्वीकृति दिनांक 22.08.2015 के मंत्रिपरिषद की बैठक में दी जा चुकी है। संचिका संख्या म.भो./को.-ES-123 / 2015 के पृष्ठ संख्या 16/प पर स्वीकृति से संबंधित आदेश है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रतिलिपि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) को प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुनिल कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1007-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>